

**B.Sc. VI SEMESTER [MAIN/ATKT] EXAMINATION  
MAY - JUNE 2025**

**ZOOLOGY**  
**[Genetics]**  
**[Discipline Specific Elective]**

*[Max. Marks : 60]**[Time : 3:00 Hrs.]*

**Note : All THREE Sections are compulsory. Student should not write any thing on question paper.**  
**नोट : सभी तीन खण्ड अनिवार्य हैं। विद्यार्थी प्रश्न—पत्र पर कुछ न लिखें।**

**[Section - A]**

This Section contains **Multiple Choice Questions**. Each question carries **1 Mark**. All questions are compulsory.

इस खण्ड में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न **1** अंक का है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

**Q. 01** When both alleles are equally expressed in the heterozygous condition, it is known as -

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| a) Incomplete dominance | b) Codominance |
| c) Recessiveness        | d) Epistasis   |

जब दोनों अलील विषमयुग्मी अवस्था में समान रूप से व्यक्त होते हैं, तो इसे जाना जाता है –

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| a) अपूर्ण प्रभुत्व | b) सहप्रभुत्व |
| c) अप्रभावीता      | d) एपिस्टेसीस |

**Q. 02** In Prokaryotes, DNA replication begins at a specific site called -

- |             |                            |
|-------------|----------------------------|
| a) Ori C    | b) Promoter                |
| c) Operator | d) Origin of Transcription |

प्रोकेरियोट्स में डीएनए प्रतिकृति एक विशिष्ट स्थान से शुरू होती है, जिसे कहा जाता है –

- |           |                        |
|-----------|------------------------|
| a) ओरी सी | b) प्रमोटर             |
| c) ऑपरेटर | d) अनुलेखन की उत्पत्ति |

**Q. 03** Which of the following is a sex linked genetic disorder -

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| a) Sickle cell anemia | b) Cystic fibrosis |
| c) Hemophilia         | d) Thalassemia     |

निम्नलिखित में से कौन सा लिंग संबंधी अनुवांशिक विकार है –

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| a) सिक्कल सेल एनिमिया | b) सिस्टीक फाइब्रोसिस |
| c) हिमोफिलिया         | d) थैलेसेमिया         |

**Q. 04** Which of the following is an example of a structural chromosomal abnormality-

- a) Trisomy 21
- b) Turner syndrome
- c) Deletion
- d) Polyploidy

निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक गुणसूत्र असामान्यता का उदाहरण है –

- a) ट्राइसोमी 21
- b) टर्नर सिन्ड्रोम
- c) डिलीशन
- d) पालीप्लॉइडी

**Q. 05** The enzyme used to cut DNA at specific sites is called -

- a) DNA polymerase
- b) Ligase
- c) Helicase
- d) Restriction endonuclease

डी एन ए को विशिष्ट स्थानों पर काटने के लिये उपयोग किये जाने वाले एन्जाइम को कहा जाता है –

- a) डी एन ए पालीमरेज़
- b) लाइगेस
- c) हेलीकेस
- d) रेस्ट्रीक्शन एण्डोन्युक्लीएज़

---

#### [Section - B]

This Section contains **Short Answer Type Questions**. Attempt **any five** questions in this section in 200 words each. Each question carries **7 Marks**.

इस खण्ड में लघुउत्तरीय प्रश्न हैं। इस खण्ड में किन्हीं पांच प्रश्नों को हल करें। प्रत्येक उत्तर 200 शब्दों में लिखें। प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का है।

---

**Q. 01** Write a note on Structural organization of Chromosome ?

गुणसूत्र के संरचनात्मक संगठन पर एक लेख लिखिये ?

**Q. 02** Explain Nucleosomal solenoid model ?

न्युक्लियोसोमल सोलेनाइड मॉडल की व्याख्या कीजिये।

**Q. 03** Describe split genes and overlapping genes along with their importance ?

स्प्लीट जीन एवं ओवरलेपिंग जीन को उनके महत्व के साथ समझाइये ?

**Q. 04** Give comparative account on linkage and recombination ?

सहलग्नता एवं पुनर्संयोजन पर तुलनात्मक विवरण दें।

**Q. 05** What do you understand from Sex Determination. Explain various types of Sex Determination ?

लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं ? विभिन्न प्रकार के लिंग निर्धारण को समझाइये।

Cont. . .

**Q. 06** What is Human Genome Project ? Write its importance ?

मानव जिनोम परियोजना क्या है ? इसमें महत्व लिखिये ?

**Q. 07** Write the applications of transgenic animal.

ट्रांसजेनिक एनीमल के अनुप्रयोग लिखिये।

**Q. 08** Describe Gene Therapy ?

जीन थेरेपी को समझाइये ?

---

[Section - C]

This section contains **Essay Type Questions**. Attempt **any two** questions in this section in 500 words each. Each question carries **10 marks**.

इस खण्ड में दीर्घउत्तरीय प्रश्न हैं। इस खण्ड में किन्हीं दो प्रश्नों को हल करें। प्रत्येक उत्तर 500 शब्दों में लिखें। प्रत्येक प्रश्न **10** अंकों का है।

---

**Q. 09** Describe variations along with its types and genetic bases ?

विविधताओं को उसके प्रकारों एवं अनुवांशिक आधारों के साथ समझाइये ?

**Q. 10** Write a detailed note on numerical changes in chromosome ?

गुणसूत्र में संख्यात्मक परिवर्तन पर एक विस्तृत लेख लिखिये ?

**Q. 11** Describe the genetic basis and symptoms of common humans genetic disorder ?

सामान्य मानव अनुवांशिक विकार के अनुवांशिक आधार एवं लक्षणों का वर्णन कीजिये?

**Q. 12** Explain the process of DNA finger printing along with its applications ?

डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग की प्रक्रिया को उसके अनुप्रयोगों के साथ समझाइये ?

